



Anno dñice Incar millo trecento quingentesimo octavo Indicta dñica die sabbi Vigotio m̄
Junij / Vñ vir dñs fons Thomas de fontana Abbas mon ca perr de pado Cremon / Vñ
a subcolector Benedi pns dñi hngolm Ep̄i Cremonen̄ colectoris dome trevalis dñi
p cassina / xpo p̄m dñm Imocentiu p̄p̄. Anno q̄nto pontificat̄ eiusdem / q̄ ante
dñm h̄m colector̄ p̄m̄ / t̄m̄tate ad̄or̄ dñon̄ sp̄it̄ deputatus p̄cipit / A Johanne &
Serdell̄ not̄ dñon̄ / Schiede p̄ medietate dñe reddim̄ a p̄m̄ om̄m̄ mon̄ ca t̄ home
Cremon̄ ac eccl̄ie s̄a Stephani & mar̄ / a eccl̄ie s̄a perr̄ de castro n̄s̄o dñe p̄m̄ p̄m̄
dñi mon̄ / a dante a m̄ante dñe a noie a de p̄m̄a dñi dñi dñi s̄a Nicholai Abbis dñi
mon̄ / p̄ p̄mo / s̄m̄m̄ dñm̄o festinat̄o s̄a Johanne baptiste p̄m̄m̄ Ann̄i dñi t̄m̄m̄
Ducros dños ann̄i / Sept̄ Ambrosietos grossos a dñm̄ Ambrosium p̄m̄ argenti.



Ego Antonolus & Restalye not̄ s̄m̄o p̄d̄o Inc̄m̄ a Voḡt̄ ca s̄p̄s̄.

Morbio 5 (64a)



Anno dñice Incar millo trecento quingentesimo Indicta dñica die Jovis
primo nonas / Vñ vir dñs Jacobus de cordis p̄p̄it̄ eccl̄ie s̄a Inac dñon̄ / Vñ
a subcolector̄ dñi Benedi pns dñi hngolm Ep̄i dñon̄ a colector̄ p̄m̄ dñe dñe t̄m̄m̄
h̄m̄ a recepit̄ a me p̄d̄o a s̄m̄o Antonolo not̄ dñm̄ / Schiede a m̄ante dñe
noie a de p̄m̄a dñi dñi Abbatis p̄ reliqua medietate dñe reddim̄ a p̄m̄ om̄m̄ dñi
mon̄ s̄a thome a p̄m̄m̄ p̄m̄m̄ a eccl̄ie s̄a Stephani a s̄a perr̄ / p̄ s̄m̄o dñi h̄o dñe
festinat̄o om̄m̄ s̄m̄o eidem p̄m̄m̄ in dñi t̄m̄m̄ / l̄br̄ tres a sol̄ dñe noue m̄p̄.



Ego Antonolus & Restalye not̄ s̄m̄o p̄d̄o Inc̄m̄ a Voḡt̄ ca s̄p̄s̄.

Morbio 5 (64b)



Anno dñice Incar millo trecento quingentesimo Indicta dñica die Vigis ap̄lis.
Vñ vir dñs Jacobus de cordis p̄p̄it̄ eccl̄ie s̄a Inac dñon̄ / Vñ
dome trevalis / h̄m̄ a recepit̄ / A dñi p̄m̄o mon̄ ca dñi mon̄ ca t̄ home dñm̄ / Schiede
a m̄ante dñe a noie a de p̄m̄a dñi dñi Abbatis p̄ medietate dñe reddim̄ a p̄m̄
om̄m̄ dñi mon̄ a s̄m̄o p̄m̄m̄ a eccl̄ie s̄a Stephani p̄m̄ a s̄a perr̄ / p̄ p̄mo / s̄m̄m̄
dñm̄o festinat̄o resurrect̄ dñe / s̄m̄o in dñi t̄m̄m̄ / l̄br̄ tres a sol̄ dñe nouem m̄p̄.

Morbio 5 (64c)

Item Anno dñice Incar millo trecento quingentesimo Indicta dñica die sabbi Vigis octavo
octobr̄. Vñ vir dñs Jacobus dñm̄m̄ a subcolector̄ p̄m̄ dñe dñe trevalis h̄m̄ er
p̄cipit̄ a s̄m̄o dño Abbate / dñm̄ / Schiede a m̄ante / p̄ reliqua medietate dñe reddim̄
a p̄m̄ om̄m̄ dñi mon̄ a dñe s̄m̄o p̄m̄m̄ a eccl̄ie s̄a Stephani p̄ s̄m̄o / s̄m̄m̄
om̄m̄ s̄m̄o dñi s̄m̄o in dñi t̄m̄m̄ / l̄br̄ tres a sol̄ dñe noue m̄p̄.



Ego Antonolus & Restalye not̄ s̄m̄o Voḡt̄ ca s̄p̄s̄.

Morbio 5 (64d)

1354 20. 11. 1354
1354 20. 11. 1354



111

Handwritten text in a cursive script, likely a list or account, written in brown ink on aged paper.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, written in a cursive script.



Handwritten text in a cursive script, continuing the list or account.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, written in a cursive script.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, written in a cursive script.

Handwritten text in a cursive script, continuing the list or account.



Handwritten text in a cursive script, continuing the list or account.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a title or a specific entry, written in a cursive script.



Handwritten text, possibly a signature or a note, written in a cursive script.



A Anno dñice Inno millo trecento quingentesimo octavo Indicta die Sabbi Vigor die
 Inno / Sen vir dno ferd Thomas de fontana Abbas mon ca perr de pado cremon / Sen
 a subcolector Reveredi pno dñi hngelm sp Cremona collector dome trevatis dno
 p sassa r xpo pno dñi Innocentii p p dñi. Anno quo pontificatus eiusdem 12. ante
 dñi hngelm collector pñi t amitate ad dno Amonei scilicet deputatus pñi pñi A Johanne &
 Verdell not Amonei Schiote p medietate dno reddunt a pñi omni mon ca thome
 Cremon ac et sic ca Stephani & mar a dno ca perr de castro nro dno pñi pñi
 di mon / a dno a mante dno a nro a de penna dñi dñi dñi fno Michi Abbas di
 mon / p pno i hno Anno festivitatis bñ Johanne baptiste pñi Anno dñi trecento
 Ducatos duos ann / Septe Ambrosios grossos a dno Ambrosium pñi argenti.

A Ego Antonolus de Pestalys not sñus pñi Inno a Rogo ca scps.
 Morbio 5 (64a)

A Anno dñice Inno millo trecento quingentesimo octavo Indicta die Jovis
 primo novemb / Sen vir dno Jacobus de comitis episcopus dno de hno dno dno
 a subcolector dñi Reveredi pno dñi hngelm sp Cremona collector dno dno trevatis
 hnt a recepit a me pñi a pñi Antonolo not dno Schiote a mante dno
 nro a de penna dñi dñi Abbate / p reliqua medietate dno reddunt a pñi omni dñi
 mon ca thome a pñi omni dñi dno Stephani a dno perr de castro nro dno pñi pñi
 festivitatis omni scps eidem pñi in dñi trecento. Libras tres a sol dno novem mps.

A Ego Antonolus de Pestalys not sñus pñi Inno a Rogo ca scps.
 Morbio 5 (64 b)

A Anno dñice Inno millo trecento quingentesimo nono Indicta die Jovis
 Sen vir dno Jacobus de comitis episcopus ac vicarius a subcolector amdit dno
 dome trevatis / hnt a recepit a dno perr mon dno mon ca thome dno Schiote
 a mante dno a nro a de penna dñi dñi Abbate / p medietate dno reddunt a pñi
 omni dñi mon a dno pñi omni a dno pñi omni pñi pñi a dno pñi omni pñi pñi
 Anno festivitatis resurct dno scps an dñi trecento. Libras tres a sol dno novem mps.

A Anno dñice Inno millo trecento quingentesimo Indicta die Sabbi Vigor die
 octobr. Sen vir dno Jacobus vicarius a subcolector pñi dno dno trevatis hnt er
 Recepit a pñi dno Abbate / dno Schiote a mante / p reliqua medietate dno reddunt
 a pñi omni dñi mon a dno pñi omni pñi pñi a dno pñi omni pñi pñi
 omni scps dñi scps an dñi trecento. Libras tres a sol dno novem mps.

A Ego Antonolus de Pestalys not sñus Rogo ca scps.



Morbio 5 (64d)
 1358
 23. August
 #

